### Calcom Vision Limited CIN :- L92111DL1985PLC021095



Corp. Office & Factory : B-16, Site-C, Surajpur, Industrial Area, Greater Noida, Gautam Budh Nagar U.P.-201 306 Ph. : 91-0120-2569761 - 4 Fax : 91-0120-2569769,E-mail : corp.compliance@calcomindia.com Website : www.calcomindia.com

To,

01.06.2023

The Manager (Department of Corporate Services) Bombay Stock Exchange Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, MUMBAI – 400 001

Scrip Code: 517236

Sub: Disclosure under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015- Audited Financial Results Published in Newspapers

Dear Sir / Ma'am,

Further to our letter dated May 30, 2023 and in terms of Regulations 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please finds enclosed a copy of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023 published in "Financial Express" (English) and Jansatta (Hindi).

Kindly take the above information on record.

Thanking you,

Yours sincerely, For CALCOM VISION LTD.

Aayushi Jindal Company Secretary & Compliance Officer

Enclosed- A/a

### WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

WEDNESDAY, MAY 31, 2023

## FINANCIAL EXPRESS

meeting of the Board of Directors and filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regularements) Regulations, 2015. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the aloresaid results. The full format of the Financial Results is available on the website of BSE at www.bsehdia.com and on Company's website at www.gpl.in. b. The Company operates in one segment only. c. The Scheme of merger of wholly owned subsidiary namely: Gujarat Polybutenes Private Limited (GPPL) with Gujarat Petrosynthese Limited (the company) with the appointed date as of 1<sup>ed</sup> July, 2020 was approved by NCLT by passing a final order dated 29° September, 2022 ("Final Order"). Consequently, the Company has merged the financials of GPPL in these audited Financial Results. Since, the appointed date was 1<sup>ed</sup> July, 2020, the pion period comparatives of quarter anded 31<sup>ed</sup> March, 2022, and the year ended 31<sup>ed</sup> March, 2022, have been restated in these audited financial results for the purpose of comparability. d. Figures of the previous quarter/period have been regrouped/rearranged, where ever necessary to make them comparable. **For Gujarat Petrosynthese Limited** 

For Gujarat Petrosynthese Limited

Place : BENGALURU Date : 30/05/2023

Sd Urmi N. Prasad, Jt. Managing Director, DIN : 00319482

## Calcom CALCOM VISION LIMITED

Regd. Office : C-41, Defence Colony, New Delhi-110024 Email id: corp.compliance@calcomindia.com | Website: www.calcomindia.com CIN:-L92111DL1985PLC021095 | Contact No.-0120-2569761 STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023 (Rs. In Lakhs except per Share data)

- 12	CONTRACTOR CONTRACTOR	Q	uarter Ende	Year Ended		
S. No.	Particulars	31.03.23 Audited	31.12.22 Unaudited	31.03.22 Audited	31.03.23 Audited	31.03.22 Audited
1	Total income from operations	4742.33	4419.32	3819.88	16095.09	10025.35
2.	Net Profit / (Loss) for the penod (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	250.33	245.54	189.69	807.54	135.07
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	250.33	245.54	169.69	807.54	135.07
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	147.65	183.74	140.00	564.62	85.38
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	174.60	199.57	168.46	640.53	174.05
6.	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10 each fully paid up)	1279.18	1279.18	1267.11	1279.18	1267.11
7	Reserves Excluding Revaluation Reserve	-	Circle-	-	2,208.33	1,537.77
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)-	Sec. 1			and and	
10	- Basic	1.16	hard and the second second	1.29	4.42	
1000	- Diluted	1.13	1:40	1.08	4.32	0.66

Note:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed quarterly and yearly results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 30.05.2023. The full format of the Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023 are available on the website of the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com and also on the website of the Company i.e. www.calcomindia.com. By Order of the Board

Place : Greater Noida Date: May 30, 2023

S.K. MALIK CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

For CALCOM VISION LIMITED

Sd/-

# AAYUSH FOOD AND HERBS LIMITED CIN: - L01122DL1984PLC018307 Regd. Off.- 370-A/2, 1st Floor, Chirag Delhi, New Delhi- 110017; Ph.- 011-41009092 Website: www.aayushfoods.com; E-mail: aayushfoodherbs@gmail.com

Statement of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2023

SI. No.	Particulars	Quarter ended 31/03/2023	Qúarter ended 31/12/2022	Quarter ended 31/03/2022	Year ended 31/03/2023	Year . ended 31/03/2022
		Audited	Un-audited	Audited	Audited	Audited
7	Total Income from Operations (net)	142.40	0.01	607.84	864.85	1,809.26
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(30.49)	(13,30)	(102.21)	(34.70)	(209.74)
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(30.49)	(13.30)	(102.21)	(34.70)	(209.74)
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax. (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(30.22)	(13.30)	(100.20)	(34.43)	(207.73
5	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	-	4	-		
6	Equity Share Capital	324.50	324.50	324.50	324.50	324.5
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve	1	The Part of	TIA - TIN	In It are	No. ST

audit committee and approved by the Board of Directors

The above is an extract of the detailed format of Finance 2 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and D The full financial results are available on www. www.maanaluminium.com.

#### Place: Delhi Date: May 30, 2023

#### KOTIA ENTERPRISES

# Regd. Off: 905, New Delhi House, 27, Barakhan CIN: L74110DL1960PLC010676 Tel:-

E mail: compliance@kotiaenterprises.com, Websit

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND

	For Quarter			
Particulars	March 31st, 2023	Decem 31st, 2		
and the second second second second	Audited	Unaudi		
Total income from operations (net)	42.99	12		
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	29.49	{5.1		
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	29,49	(5.)		
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordináry items)	29.54	(3.)		
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	29.54	(3.		
Equity Share Capital	702.05	702		
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	278.63	278		
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each) Basic : Diluted :	0.42 0.42			
vies:	18	T.		
to as "lind AS") 34 vilnerim Financial K read with Companies (Indian Account The above audited financial results reviewed by the Audit Committee and I held on May 30, 2023. These financial results shall be filed with	eporting pres ing Standard for the quart hen approver the BSE Lim	choed dif is) Rules, ter and y d by the B		
	Total income from operations (net) Net Profit/(Loss) for the period (before tax, 'Exceptional and/or Extraordinary Items). Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprehensive Income for the period (Comprehensive Income for the period (Comprehensive Income for the period (Comprehensive Income (after tax)) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings For Share (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each) Basic Diluted : <b>Xess:</b> ) These Financial results have been pre to as "Ind AS") 34 - Inferim Financial R read with Companies (Indian Account The above audited financial results reviewed by the Audit Committee and held on May 30, 2023.	Particulars March 31st, 2023 Audited   Total income from operations (net) 42.99   Net Profit/(Loss) for the period (before tax, (Exceptional and/or Extraordinary ltems) 29.49   Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 29.49   Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 29.49   Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 29.54   Total Comprehensive Income for the period (Comprehensive Income for the period (Comprehensive Income for the period (Comprehensive Income (after tax)) 29.54   Total Comprehensive Income for the period (Comprehensive Income (after tax)) 29.54   Equity Share Capital 702.05   Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 278.63   Eartings Per Share (after extraordinary teme) (of % 10/- each) 0.42   Basic: 0.42   Diluted : 0.42   Ntes: 1   1 Thege Financial results have been prepared in accordinary reside with Comparise (india Accounting Standard The above audited financial results for the quart reviewed by the Audit Committee and then approve held on May 30, 2023.		

year and the published year to date !

- Figures for the previous period have been regrouped wherevi (5) to the classification of the current period.
- Company earlier used to have 2 segments, namely (i) Trading services. As now the Company has selzed to operate in constru-of the Company now fall under 1 segment i.e. trading of got regulation 33 has not been given.

Place: New Delhi Date: May 30, 2023

Sr. No.

> 2 3. 4

> > 6.

K			

CMX HOLI (Formerly known as SIEL CIN No: L655 Address: 12-B, Soni Mansion, Rat Email: sielfinancialservices@gm STATEMENT OF AUDITED STANI QUARTER AND YEAR
Particulars
Total Income from Operations
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)
Net Profit / (Loss) for the period before fax
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]

Paid Up Equity Share Capital

जनसता 31 मई, 2023 प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका ओरिक्स लीजिंग एड एम्प; फाइनांसियल सविंसेस इंडिया लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गवा है. की मै. हिमांशु जूट फैब, निर्मल कुमार गुप्ता, मीना गुप्ता एंड एम्प; हिमांशु गुप्ता (ऋणधारक उब सह-ऋणधारक(कों) से ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनांसियल सर्विसेस इंडिया लि के बचाने 31 मई, 2023 को आईएनआर 1,24,87,906/- (र. एक करोड़ चौबीस लाख सतासी हजा नै सौ छः मात्र) की वसूली के लिये 19.6.2023 को ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है" ल्या ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य आईएनआर 9500000- (क पंचानवे लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) आईएनआर 30,00,000/- (रुपवे केंद्र लाख मात्र) है। गिरवी सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति मकान सं. 149, खसरा नं. 10 एवं एएमपी; 11, हैदरपुर, ओल्ड लाल डोन. ग्राम शालीमार बाग, दिल्ली-110088, एरिया माप लगभग 175 वर्ग चाईस। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सुखवन्त भामराह (सम्पर्क विवन्त +91-9810389922) से सोमवार से शुक्रवार तक कार्यावधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शतों के लिये कृपया ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनांसियल सर्वितेस इंडिया लि. की वेबसाईट अर्थात् https://www.orixindia.com/leasing.php में दे 📹 लिंक देखें। तिथि: 29.05.2023, स्थान: दिल्ली हस्ता LAN: LN000000006561 प्राधिकृत अधिकारी ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनांसियल सविंसेस इंडिया लि. सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजी० कार्यालयः पवनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद (यु.पी CIN - L17111UP1988PLC009594 फोन:01232-261521, वेबसाइट: www.sybly.com, ई—मेल: sybly@re 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही/वार्षिक के लिए एकल लेख ন ক टिप्पणीः स. 31.03.2029 CHINA THE 1. संचालन से कुल आय 72.83 78.81 शुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु (अपवाद मद तथा कर से पूर्व 2. -71.08 -183.59 शुद्ध लाग/(हानि) अवधि हेतु तथा कर पूर्व (अपवाद मद से पश्चात) 3. 192.57 282 30 शुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु (कर पश्चात तथा अपवाव -132.59 -772.37 मद से पश्चात) अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर पश्चात लाम -132.59 772 30 स्थानः ग्रेटर नोएका /हानि शामिल करके तथा कर पश्चात अन्य व्यापक आय) तिषिः 30 मई, 2023 प्रवत्त इक्विटी शेयर पूंजी ( र 10/- का अंकित मूल्य) 6 915.66 015 65 अन्य इक्विटी 7 प्रति अंश आय ( र 10/- प्रत्येक) सतत तथा असतत 8. कार्य संचालन हेत्) (अ) मूलभूत (ब) द्रव्य -1.45 2.43 -1.45 2.45 टिप्पणियाँ— 1. उपरोक्त लेखापरिक्षित तिमाही/वार्षिक विक्तीय परिणाम जैसा कि अंडेटण सार्य समिति गए हैं तथा तिथि 30.05.2023 में आयोजित कम्पनी की बैठक ने निदेहक नडऩ हा सांविधिक लेखा परीक्षकों ने एक अप्रतिबन्धित एवं अविकृत लेखापरीक्षा राव अपनी सीनित की है। 2. उपरोक्त परिणाम स्टाक एक्सचेंज विनियम बोर्ड ऑफ इंडिया (स्वीन

आवस्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 33 अन्तर्गत स्टाऊ एस्टाव न दव जाव परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार विवरण है तथा तिमाह/ दाव ह जावना वाल्यान स्टाक एक्सचेंज की वेबसाइट: www.bseindia.com तथा कम्पनी की देवनाइ उपलब्ध है।

रखानः मुरादनगर तिथिः 30.05.2023

भारत होटल लिमिटेड

सीआईएन: U74899DL1981PLC011274 रणि, कार्यालयः बाराखंबा लेन, होग: 91-11-4444 7886 tot bhishare@thelalit.com

शेयरधारकों को नोटिस

विषय:- विसीय वर्ष 2015-16 की अवत्त और अवावाकृत लामांच चरित और इंप्ली के हो का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष्न (आईईपीएफ) में अनिवार्य हस्तांतरण एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धाल 124 🗐 🖶 नान पठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्ष, ल्यानाल और रिफंड) नियम, 2016 , अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे लभी शेवरों को उन्हेंडेंग नाम पर हस्तांतरण करना अनिवार्य करता है जिसके संबंध में लागांश का दाव किया गया है/लगातार सात या अधिक वर्षों के लिए मुगतान नहीं वि 四 第1 इस वर्ष कंपनी के पास पड़े वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अदावाकृत / बल लामांश को 6 अक्टूबर 2023 के बाद आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया ज कंपनी ने पहले से ही उन सभी शेयरधारकों को एक विशिष्ट संचार नेजा है जिनले शेयर कंपनी के साथ पंजीकृत उनके पते पर आईईपीएक को हालांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने लानांश का दावा हो से करें दिसमें दिस ज कोने चय क

## Calcom कैल्कॉम विजन लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः सी-41, डिफ्रेंन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 ईमेल आईडी: corp.compliance@calcomindia.com | वेक्साइट: www.calcomindia.com CIN:- L92111DL1985PLC021095 | संपर्क संत: 6120-2569761

31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेशित वित्तीय परिणामों का विवरण

	Married W.	1.30	SER.	-	
19.	लाखा	म	ईपीएस	का	9160

ø.		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
₩0.	विवरण ,	31.03.23 अंके बित	31.12.22 अनंकेक्षित	31.03.22 अंके दित	31.03.23 अंके सित	31.03.22 अंके सित
1.	प्रचालनों से कुल आय	4742.33	4419.32	3819.88	16095.09	10025.35
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर से पहले, विशेष और/या असाधारण मदें)	250.33	245.54	189.69	- 807.54	135.07
3.	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाम/ (हानि) (विशेष और/या असाधारण मदें के बाद)	250.33	245.54	189.69	807.54	135.07
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/ (हानि) (विशेष और/या असाधारण मदे के बाद)	147.65	183.74	140.00	564.62	85.38
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाम/हानि (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	174.60	199.57	168.46	640.53	174.05
6.	इक्विटी शैयर' पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य रू. 10/- पूर्ण भुगतान किया गया)	1279.18	1279.18	1267.11	1279.18	1267.11
7.	पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोडकर रिजर्व			-	2.208.33	1.537.77
8.	प्रति शेयर आय (प्रत्येक रू. 10/-) (निरंतर और बंद परिचालनों के लिए)	1.				
	– बेसिक	1.16	1.44	1.29	4.42	0.78
	– डायल्यूटिड	1.13	1.40	1.08	4.32	0.66

उपरोक्त सेनी (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के बंहर्वत स्टॉक एक्सचैंज में दर्ज की गई समाप्त त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्राक्तप का उद्धरण है। 30.05.2023 को आयोजित बैठक में विस्तृत त्रैमासिक और वार्षिक परिणामों की समीक्षा लेखापरीका समिति दारा की गई और निदेशक मंडल द्वारा अनुमौदित किया गया। 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के बित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एवसचेंज की वेबसाइट यानि www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट यानि www.calcomindia.com पर भी उपलब्ध है।

> बोर्ड के आदेशानुसार कृते कैल्कॉम विजन लिमिटेड हत्ता/-एस. के. मलिक कव्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एन के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंची. कार्यालयः ओमेक्स स्क्वायर, प्लॉट नंबर 14, तीसरा तल, जसोला जिला केन्द्र जसोला, नई दिल्ली-110025 सीव्याईएन: L17299DL1983PLC163230, जोन: +911161119393 ईमेल आईबी: n.ktextiles123@gmail.com, पेवसाइट: www.nktil.co

31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु पुखतकृत अंकेशित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

	Carlos - Carlos de Carlos			
and the second se		11.0	(10)	लाख

1	A MARKING CONTRACTOR IN CONTRACTOR	(स. लाखाँ । समाप्त विंगाही समाप्त वर्ष					
	The second second second second second	-				182-18-5-18-1-	
1	·	31.03.2028 (खंकेलित)	31.12.2022 (अन'केकित)	31.03.2022 (अंकेंबिल)	31.03.2023 (अंकेंसित)	31.03.2023 (अंकेबिल)	
i	प्रचालनों से कुल आय	1.27	1.30	0.10	4.96	3.73	
2	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(डानि) (कर, जपबाद तथा/या असाधारण मर्वो से पहले)	0.04	(0.25)	(1.92)	(0.30)	(2.73)	
3	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(ठानि) कर से वहने (सपनाद तथा/या असाधारण मदों के बाद)	0.04	(0.25)	(1.92)	(0.30)	(2.73)	
ł.	अवधि हेनु शुद्ध लाम/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/वा अलाखारण मदों के बाद)	0.04	(0.25)	(1.92)	(0.30)	(2.69)	
5	अवनिम हेतु कुल व्यापक अन्ध्र [जिसमें जबधि हेतु लाम/(हानि) (कर परवाश) और अन्ध्र सम्मिसित आय (कर परवात) शामिल है]	3,139.09	(0.25)	1,316.50	3,139.36	1,316.43	
i	प्रदत इक्विटी डौंगर पूँजी (अंकित मूल्य क 10 प्रत्येक)	83.98	83.98	83.98	83.98	83.98	
1	रिजर्व (पुनर्मूल्याकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि लेखावर्ष 2022–23 और 2021–22 के अंकेंक्षित तुलनपत्र में दर्शावा गवा है।				8,933.48	5,794.12	
1	प्रति शेयर आय (क) (अंकित मूल्य क 10)		2	1		1	
	1. मूल	0.00	(0.03)	(0.23)	(0.04)	(0.32)	
	2. तरल	0.00	(0.03)	(0.23)	(0.04)	(0.32)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही और बर्ष	हेतु समेकित	अंकेसित वित्ती	व परिणामों व		रण इ. लाखों में)	
12.	the second second second second	समाप्त विमाठी					
	Later of Ania Print and	31.03.2023 (बाकेंसित)	31.12.2022 (सनकेबित)	31.03.2022 (संकेसित)	51.03.2023 (ब्रंकेसित)	31,03.2022 (ක්ෂ්ඩිත)	
R	प्रचालनों से कुल आय	(859.42)	4,425.13	(775.49)	4508.85	778.44	
100	अवधि हेतु शुद्ध लाग/(हानि) (कर, जणवाद	(842.50)	4445.00	(784 575			